

भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{7} \times \frac{1}{2} =$$

$$\frac{4}{6} \times \frac{7}{8} =$$

$$\frac{7}{9} \times \frac{3}{2} =$$

$$\frac{7}{9} \times \frac{1}{5} =$$

$$\frac{5}{2} \times \frac{1}{7} =$$


$$\frac{3}{5} \times \frac{1}{8} =$$

$$\frac{1}{6} \times \frac{4}{7} =$$

$$\frac{6}{7} \times \frac{6}{8} =$$

$$\frac{3}{8} \times \frac{6}{7} =$$

$$\frac{1}{8} \times \frac{2}{6} =$$



भिन्नों का गुणन (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{14}$$

$$\frac{4}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{7}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$$

$$\frac{7}{9} \times \frac{1}{5} = \frac{7}{45}$$

$$\frac{5}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{5}{14}$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{40}$$

$$\frac{1}{6} \times \frac{4}{7} = \frac{2}{21}$$

$$\frac{6}{7} \times \frac{6}{8} = \frac{9}{14}$$

$$\frac{3}{8} \times \frac{6}{7} = \frac{9}{28}$$

$$\frac{1}{8} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{24}$$